

बच्चे और 65 वर्ष से कम की आयु वाले बालिग व्यक्ति

NJ फैमिलीकेयर न्यू जर्सी के निवासियों के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा है। यह मुफ्त या कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल प्रदान करता है। NJ फैमिलीकेयर कार्यक्रम में CHIP, मेडिकेड और मेडिकेड विस्तार के लोग शामिल होते हैं।

क्या शामिल है?

NJ फैमिलीकेयर राज्य द्वारा अनुबन्धित स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करता है। NJ फैमिलीकेयर में स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल की अधिकतर जरूरतें कवर होती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- डॉक्टर की विजिट्स
- नुस्खे यानि प्रिस्क्रिप्शंस
- प्रयोगशाला सम्बन्धी जाँच
- एक्स-रे
- अस्पताल में भर्ती
- दंत चिकित्सा
- चश्मे
- मानसिक स्वास्थ्य सेवायें
- विशेषज्ञ डॉक्टर की विजिट्स

कौन योग्य है:

किसी भी उम्र के योग्य न्यू जर्सी निवासी NJ फैमिलीकेयर के लिए पात्र हो सकते हैं। इसमें बच्चे, माता-पिता, केयरटेकर रिश्तेदार, और बिना आश्रित बच्चों वाले बालिग लोग शामिल हैं। पात्रता आवेदक के नवीनतम संघीय टैक्स विवरणी पर रिपोर्ट की गयी आय और परिवार के आकार पर आधारित है। हालाँकि, NJ फैमिलीकेयर जानकारी का सत्यापन करने के लिये अन्य स्रोतों, जैसे कि वेतन के स्टब्स का उपयोग कर सकता है। बच्चों के लिये आय की पात्रता बालिग लोगों के लिये आय की पात्रता से अधिक है। (चार्ट देखें)

इसके लिये क्या कीमत चुकानी होती है?

बहुत से लोगों को, NJ फैमिलीकेयर के लिए कोई भी दाम नहीं चुकाने होंगे: कोई मासिक प्रीमियम या सह-भुगतान नहीं। बच्चों के साथ उच्च आय वाले परिवारों के लिए सह-भुगतान और मासिक प्रीमियम हेतु एक स्लाइडिंग स्केल वाला पैमाना है।

क्या कोई प्रतिबन्ध हैं?

पूर्व-मौजूदा स्थितियां पात्रता को प्रभावित नहीं करती हैं। अधिकतर मामलों में, योग्य होने के लिए बच्चों को कम से कम 3 महीनों तक बिना चिकित्सा बीमा के होना चाहिये। चूँकि इसके अपवाद हैं, इसलिए आपका कोई प्रश्न हो, तो NJ फैमिलीकेयर को फोन करना अच्छा है।

बालिग लोगों को योग्य होने के लिए, उनके पास कम से कम पाँच वर्षों से वैध स्थायी निवासी का दर्जा होना चाहिये। बच्चे और गर्भवती महिलायें, यदि वे वैध निवासी हैं, तो इसके पात्र हो सकते हैं, चाहे अमेरिका में उनके प्रवेश की तारीख कोई भी हो। बिना दस्तवेज वाले निवासियों के लिए, उनके बच्चे इसके पात्र हो सकते हैं अगर उनका जन्म अमेरिका में हुआ हो।

और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें?

यह पता करने के लिए कि क्या आप योग्य हैं, या और अधिक जानकारी के लिए, फोन करें या हमारी वेबसाइट देखें।

www.njfamilycare.org

ऑनलाइन आवेदन करें।

1-800-701-0710

(बहुभाषी ऑपरेटर्स उपलब्ध)

TTY 1-800-701-0720

(सुनने में कठिनाई वाले लोगों के लिए)

NJ FamilyCare, लागू संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का अनुपालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, उम्र या विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यदि आप हिन्दी बोलते हैं तो, आपको भाषा सहायता सेवायें निःशुल्क उपलब्ध हैं। 1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720) पर फोन करें।

अधिकतम मासिक आय

1 जनवरी, 2017 को

आपकी संघीय टैक्स विवरणी पर रिपोर्ट किया गया परिवार का आकार और आपकी मासिक आय

परिवार का आकार*	बच्चों का कवरेज (19 वर्ष से कम आयु)	माता-पिता एवं एकल बालिग व्यक्ति (आयु 19-64 वर्ष)	गर्भवती महिलायें (कोई भी आयु)
1	\$ 3,568	\$ 1,387	लागू नहीं
2	\$ 4,805	\$ 1,868	\$ 2,775
3	\$ 6,041	\$ 2,349	\$ 3,489
4	\$ 7,278	\$ 2,829	\$ 4,203
5	\$ 8,515	\$ 3,310	\$ 4,917
6	\$ 9,751	\$ 3,791	\$ 5,631
हर अतिरिक्त सदस्य	\$ 1,237	\$ 481	\$ 715

* आपके परिवार का आकार माता/पिता (माता-पिता) या केयरटेकर, और 21 वर्ष से कम आयु के खून के रिश्ते वाले ऐसे सभी बच्चों जो टैक्स विवरणी में आश्रित हों, और साथ ही आपके घर में रह रहे किसी भी अन्य टैक्स आश्रित व्यक्ति की कुल संख्या के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।